



साहित्यकार

चित्रावली





संस्कृत, प्रथम, १६७२



प्रकाशक

स्वस्तिका प्रकाशन

२५६, चक

जीरो रोड

इलाहाबाद-३



मुद्रक व ब्लाक निर्माता

दि इलाहाबाद ब्लाक वक्सं प्रा० लि०

जीरो रोड

इलाहाबाद



## यह चित्रावली

सन १९५८ में हमने अपनी सहयोगी संस्था राजकुमार प्रकाशन के प्रयास से 'हिन्दी लेखक चित्रावली' का प्रकाशन किया था। तब उस चित्रावली में केवल पञ्चीस चित्र थे। प्रकाशन के थोड़े समय बाद ही चित्रावली का पूरा संस्करण समाप्त हो गया था और हिन्दी के प्रेमियों ने उस प्रयास की भूरिभूत प्रसंशा की थी।

कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उस चित्रावली के पुनर्मुद्रण का अवसर न आया। लेकिन हिन्दी लेखकों की चित्रावली को मार्ग बराबर बनी रही। अतः अब हिन्दी के पेंटीस मध्यन्य साहित्यकारों की यह चित्रावली प्रस्तुत कर के उस मार्ग की पूति करते हुए हमें संतोष का अनुभव हो रहा है।

जिन साहित्यकारों के चित्रों का यह संकलन है उनके क्रम में प्रायः का ही ध्यान रखा गया है। हर चित्र के साथ साहित्यकार का संक्षिप्त जीवन परिचय भी दिया जा रहा है।

विष्वास है कि हिन्दी के पाठकों और शिक्षा-संस्थाओं को इस चित्रावली से पूरा लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा और हमारा प्रयास सफल होगा।

प्रकाशन की वर्तमान मौहगाई को देखते हुए हमने चित्रावली का मूल्य भी कम ही रखने की कोशिश की है ताकि सर्वजन को आसानी से सुलभ हो सके।



## ऋग्मि


- १-मारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- २-महावीरप्रसाद द्विवेदी
- ३-अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओध'
- ४-प्रेमचंद्र
- ५-पुहयोत्तमदास टण्डन
- ६-रामचन्द्र शुक्ल
- ७-मैथिलीशरण गुप्त
- ८-जयशंकर प्रसाद
- ९-माखनलाल चतुर्वेदी
- १०-वृन्दावनलाल वर्मा
- ११-राधिकारमण प्रसाद सिंह
- १२-राहुल सोकृत्यायन
- १३-शिवपूजन सहाय
- १४-तियारामशरण गुप्त
- १५-सूर्यकान्त विषाणु 'निराला'
- १६-सेठ गोविन्ददास
- १७-सुमित्रानन्दन पंत
- १८-पाण्डेय वेचन शर्मा 'उम्र'
- १९-रामवृक्ष वेनीपुरी
- २०-इलाचन्द्र जोशी
- २१-लक्ष्मीनारायण मिश्र
- २२-भगवतीचरण वर्मा
- २३-सुमदाकुमारी चौहान
- २४-यशपाल
- २५-जैनेन्द्र कुमार
- २६-रामकुमार वर्मा
- २७-नन्ददुलारे वाजपेयी
- २८-महावीरी वर्मा
- २९-हजारीप्रसाद द्विवेदी
- ३०-रामधारी सिंह 'दिनकर'
- ३१-उपेन्द्रनाथ अशक
- ३२-अज्ञेय
- ३३-अमृतताल नागर
- ३४-रजनी धनिकर
- ३५-ओंकार शरद

स्वामी हरदास

चिनामाली







आधुनिक हिन्दी साहित्य के जन्मदाता एवं इतिहास-पुरुष। भारतीय नवोत्थान के प्रतीक, सर्वतोन्मुखी प्रतिभा-सम्पन्न, कर्मठ साहित्यकार भारतेन्दु हरिशचन्द्र, इतिहास प्रसिद्ध सेठ श्रीमीचद के बशज थे।

६ सितंबर सन् १८५० को आप का काशी में जन्म हुआ। धनाद्य परिवार में जन्म पा कर भी आपका जीवन एक विद्रोही के रूप में ही बीता।

शिक्षा प्रारंभ में घर पर फिर बाद में बोस कालेज में हुई। बहुत छोटी आयु में ही पिता का देहान्त हो गया था, अतः पारिवारिक जिम्मेदारी कर्ये पर आ पड़ी और शिक्षा का क्रम दूट गया।

प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति प्रगाढ़ रुचि थी। आप कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरणशक्ति वाले थे। स्वाध्याय द्वारा ही आप संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगला, उडूँ और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता बने।

आठ वर्ष की आयु से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी। प्रथम तो शृंगार-रस की ओर अधिक भूकाय था। बाद में नाटक, गद्य के माध्यम से भारत की तल्कालीन स्थिति का निर्भीकता पूर्वक चित्रण किया। इसी कारण वे अंग्रेजी सरकार की आँखों में भी वरावर खटकते रहे।

आप ने बंगला भाषा से अनेक ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद किया। काव्यग्रंथ, नाटक, उपन्यास और स्फुट रचनाओं की संख्या सौ के लगभग है। आप के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—उत्तरार्द्ध भक्तमाल, सत्सई शृंगार, भारत दुर्देशा, सत्य हरिशचन्द्र, मुद्राराजस, कर्पर मजरी, नीलदेवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और भारत जननी आदि।

आप को बहुत कम आयु मिली। ६ जनवरी सन् १८८५ को ३४ वर्ष चार महीने की अल्पायु में आप का देहान्त ही गया। इस अल्पायु में ही आप हिन्दी की नया जीवन दे गए। ०

## भारतेन्दु हरिशचन्द्र




जन्म : सन् १८५०  
निधन : सन् १८८५









आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी अध्युनिक हिन्दी गद्य-साहित्य के युग-विद्यायक है। महान सम्पादक तथा लड़ी बोली गद्य को प्रतिष्ठा देने वाले शाचार्य द्विवेदी युग-प्रवर्तक युग-मुद्रण थे।

उत्तर प्रदेश के रायेंवरेली जिले के दीलतपुर ग्राम में आप का सन १८६४ में एक भवत-ऋग्वेण परिवार में जन्म हुआ था।

आप को प्रारंभिक शिक्षा गाँव की पाठशाला में हुई फिर राय-वरेली, उत्तराव, फतेहपुर और बंबई में। वही छोटी उम्र में ही आप को जीविका के लिए रेलवे की नौकरी करनी पड़ी। नागपुर, अजमेर, बंबई और भासी में नौकरी काल में रहे। फिर नौकरी से इस्तीफा देकर साहित्य-सेवा में लगे।

सन १८०३ में आपने 'सरस्वती' पत्रिका का सम्पादन प्रारंभ किया और सन १८१० तक 'सरस्वती' के माध्यम से हिन्दी के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रहे।

आप के ग्रंथों की संख्या अस्ती से अधिक ही है। आप के प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय विनोद, स्नेह-माला, समाचार पत्र सम्पादक स्वतः, नागरी, सुमन, काव्य-भंजूपा, कविता-कलाप, प्राचीन पण्डित और कवि, तस्लोपदेश, नैपद्धतिरित चर्चा, वैज्ञानिक कोश, अतीत-स्मृति, नाट्यशास्त्र, साहित्यालाप, लेखांजलि, संकलन आदि अतिप्रसिद्ध हैं।

आचार्य द्विवेदी जी जीवन भर हिन्दी की कमियों को पूरा करने में प्रयत्नशील रहे और आपने अथक परिधम से हिन्दी गद्य को एक सशक्त रूप-रैंग दे सके। उन्होंने आपने सत्प्रयास से हिन्दी में अनेक लेखकों व कवियों को प्रोत्साहित कर के लेखन-कार्यों को भी समाज में सम्मानित स्थान दिलाने में सफल रहे।


सन १८३८ में आप के निघन से साहित्य का आचार्य-पीठ अनिश्चित काल के लिए रिक्त हो गया। ●

## महावीरप्रसाद द्विवेदी




जन्म : सन १८६४  
निधन : सन १८३८









खड़ी बोली को काव्य-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले हरिअौध जो का उक्तायक-व्यक्तित्व अत्यन्त प्रेरणाद्यपद था ।

आप का जन्म सन १८६५ में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामावाद कस्बे में हुआ था ।

शिक्षा का क्रम अधिक न चल सका । नारंग परीक्षा पास कर के आप ने निजामावाद में अध्यापकी शुरू की, फिर वर्षों तक राजस्व विभाग में सदर कानूनगो के पद पर रहे । यहाँ से अचान्ना प्रगति करने पर पं० मदनमोहन मालवीय के आश्रम पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में श्रवतनिक हिन्दी प्राध्यापक का कार्य किया ।

आप संस्कृत, फारसी और उर्दू के प्रकाण्ड पंडित थे ।

प्रारम्भ में आपने नाटक तथा उपन्यास लिखे परन्तु शीघ्र ही काव्य-नृजन की ओर आप की हस्ति खड़ी और थोड़े वर्षों के मृजन के बाद ही आप को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का थेय मिला ।

आप की प्रमुख रचनाएँ हैं—हविमणी परिणय, ठेठ हिन्दी का ठाठ, अवलिला फूल, रसिक-दृष्ट्य, प्रेम प्रपञ्च, प्रेम गुप्तहार, काव्योपन, प्रियप्रवास, कर्मवीर, चोखे चौपदे, चुमते चौपदे और वैदेही बनवास आदि ।

'प्रियप्रवास' को हिन्दो साहित्य का महाकाव्य माना गया है ।

सन १८२४ में आप हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए ।

सन १८४१ में दिहात्तर वर्ष की आयु में आप का दैहान्त होने से हिन्दी साहित्य ने अत्यन्त आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त महाकवि खो दिया । •

अयोध्यासिंह  
उपाध्याय  
'हरिअौध'




जन्म : सन १८६५  
निधन : सन १८४१









कथा-साम्राट प्रेमचन्द का नाम आज भारत की सोमा को लौध कर विश्व भर में विख्यात हो गया है।

प्रेमचन्द उपनाम है और असली नाम धनपत राय।

हिन्दी कहानी को जनप्रिय बनाने का श्रेय प्रेमचन्द जी को ही है। प्रेमचन्द की कहानियों से हिन्दी कथा-साहित्य को समाज के व्यायार्थ चित्रण का नया मार्ग मिला और आज तक उसका प्रभाव ताजा है।

बनारस के निकट लम्ही ग्राम में ३१ जुलाई सन् १८८० को जन्म लेकर प्रेमचन्द ने जीवन का अधिकांश भाग बनारस में ही बिताया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई। फिर इंटर किया बींस कालेज, काशी से तथा प्राइवेट बी० ए० गोरखपुर से।

आप का व्यवपन बड़ी गरीबी और कष्ट में बीता। योंतो आप ने सारा जीवन ही सधर्ये करते हुए आर्थिक कष्टों में काटा, इसीलिएं भारत की दुखी जनता का मन समझ सके और उनके दुख-दर्द का ही दे स्वाभाविकता से विश्वए करते रहे।

जमाना नामक उर्दू मासिक में सन् १६०७ में आप की पहली कहानी छीरी। प्रारंभ में आप उर्दू में ही लिखते थे। फिर १६१६ में हिन्दी में 'पंच परमेश्वर' छीरी। बाद में आप पूरी तरह हिन्दी के हो गए और मर्यादा, जागरण और हंस आदि पत्रों का सम्पादन भी किया।

आप ने लगभग तीन सौ कहानियों और एक दर्जन उपन्यासों की रचना कर के हिन्दी कथा-साहित्य को बंभवशाली बनाया। आप के 'गोदान' उपन्यास की विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में गणना होती है।

आप के प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं—गोदान, गवन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, सेवासदन, मानसरोवर और संग्राम आदि।

८ अक्टूबर १६३६ को आप के देहान्त से हिन्दी कथा-साहित्य का सूर्य ढूब गया।

प्रेमचन्द हिन्दी-कथा-साहित्य की यानि है। प्रेमचन्द कथा-साम्राट है।

## प्रेमचन्द




जन्म : सन् १८८०  
निधन : सन् १६३६









हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाने के लिए ग्राजीवन संघर्ष करने वाले श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन को 'राजपि' की सांबंधित उपाधि देकर भारत की जनता ने उनके अजेय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया था।

राजपि टण्डन जी उच्चकोटि के साहित्यिक और साहित्य के पारची थे। वे काव्यप्रेमी और रसिक-हृदय व्यक्ति थे। प्रारम्भ में कविताएँ भी लिखी, पर बाद में लेखन से अधिक हिन्दी की सेवा व प्रतिष्ठा के लिए हिन्दी आनंदोलन की ओर बढ़े और शीघ्र ही उसके सर्वभाग्य नेता बने।

प्रयाग में १ अगस्त १९६२ को एक सम्पन्न सभी परिवार में जन्म लेकर आप ने सारा जीवन हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित कर दिया। आप की शिक्षा प्रयाग में ही हुई। आप उच्चकोटि के बकील थे। लेकिन जीवन के प्रारम्भ से ही राजनीति में संवित लेते थे और बाद में देश के प्रथम श्रेणी के नेता बने। आप सन् १९५०-५१ में काशी से क्रम्भक भी थे।

आप ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की जो आप की अमर कृति है। आप ने सन् १९५६ में 'अभ्युदय' का सम्पादन किया। बाद में आप उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे।

टण्डन जी के लेखों की संख्या कम नहीं है, पर वे पत्र-पत्रिकाओं में विलरे पड़े हैं। जब कभी उनका सकलन होगा तो हिन्दी साहित्य को एक नियंत्रित प्राप्त हो जायगी।

टण्डन जी को 'भारत रत्न' की सर्वोच्च उपाधि दे कर भारत सरकार ने उनको सम्मान किया।

टण्डन जी अपराजेय और आदर्श नीतिक व्यक्तित्व के घनी और त्यागी पुरुष थे।


१ जुलाई १९६२ को प्रयाग में आप का देहान्त हुआ और हिन्दी का थेष्टम योद्धा हमने खो दिया। ●

## पुरुषोत्तमदास टण्डन




जन्म : सन् १९३२  
निधन : सन् १९६२









हिन्दी साहित्य को उसका प्रथम प्रामाणिक इतिहास देने वाले आवार्ये रामचन्द्र शुक्ल का साहित्य में अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है।

शुक्ल जी का साहित्यक व्यक्तित्व बहुरंगी रहा है। साहित्य-इतिहासकार, शास्त्रीय वैज्ञानिक आलोचक, निबन्धकार, कवि, सम्पादक और अनुवादक। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं जिस ओर शुक्ल जी की सेखनी न मुड़ी हो।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना ग्राम में एक कुलीन जात्यां परिवार में सन १८८४ में जन्म लेने वाले शुक्ल जी ने हिन्दी को जो मर्यादा दी, वैसा दूसरा उदाहरण नहीं।

आप को प्रारंभिक शिक्षा मिरजापुर में और फिर प्रयाग में हुई। आप इन्टर के आगे पढ़ न सके। लेकिन साहित्य के प्रति लुचि प्रारंभ से ही बहुत तीव्र थी। प्रारंभ में छोटी-मोटी सरकारी नौकरी और अध्यापकी के बाद आप सन १९०६-०७ में नागरी प्रचारिणी सभा में 'हिन्दी शब्द सागर' के सम्पादक मण्डल में आ जुड़े। वहीं 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का भी सम्पादन किया। उसके बाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी अध्यापक हुए और वहीं हिन्दी विभागाध्यक्ष भी हुए।

आप ने हिन्दी में शास्त्रीय वैज्ञानिक आलोचना की पढ़ति प्रारंभ की। आप ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' रच कर हिन्दी को प्रथम प्रामाणिक इतिहास दिया जिसका महत्व आज तक सर्वभान्य है।

निर्बंधकार के रूप में भी आप का सर्वभान्य महत्वपूर्ण स्थान है। आप के ग्रंथों की संख्या कम नहीं, जिनमें प्रमुख हैं—हिन्दी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास, रस-भीमांसा, चिन्तामणि आदि। कई प्राचीन काव्य-प्रयंगों का सम्पादन कर के आप ने उनसे आधुनिक युग को परिचित कराया।

सन १९४० में शुक्ल जी के निधन से हिन्दी का गौरवशाली संरक्षक उठ गया। ●

## रामचन्द्र शुक्ल




जन्म : सन १८८४  
निधन : सन १९४०









भारतीय सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना के उन्नायक कवि मैथिलीशरण गुप्त को 'राष्ट्रकवि' की उपाधि देकर भारतीय जन ने उनका आदर किया है।

राम-भक्त कवि, आधुनिक तुलसी, राष्ट्रकवि गुप्त जी ने 'साकेत' महाकाव्य की खड़ी बोली में रचना कर के राम-काव्य का मानस के द्वारा दूसरा कीर्तिमान स्थापित किया है।

उत्तर प्रदेश के झौंटी जिले के चिरसाँव स्थान में सन १८८६ में एक सम्पन्न वैश्य परिवार में जन्म लेकर गुप्त जी ने सारा जीवन साहित्य साधना में ही लगाया।

आप ने किशोरावस्था से ही लिखना प्रारंभ किया और आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के सम्पन्न में आकर पूर्णरूप से अपने काव्य-व्यक्तित्व को विकास दे सके।

आप ने पचास से अधिक ग्रंथों की रचना की जिनमें जयद्रथ वध, भारत-भारती, किसान, पंचवटी, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिंहराज, पृथ्वीपुत्र, जयभारत, विद्युतिया, लीला, मेघनाथ द्वारा और रत्नावली आदि प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हैं।

अपनी साठ वर्ष की साहित्य-सेवा से गुप्त जी ने हिन्दी को गोरव, प्रतिष्ठा और अमरता दी है।

गुप्त जी राम-भक्त थे। राम ही उनके जीवनाधार थे। राम ही उनके काव्य के प्रेरणा-स्रोत थे। राम के प्रति अपनी भक्ति भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम और साहित्य के प्रति सर्वस्व अर्पण की लालसा ही उनकी खूबी थी।

गुप्त जी को हिन्दी के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय संसद की सदस्यता देकर भारत सरकार ने आपका सम्मान किया। गुप्तजी की राष्ट्रीय व साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें सरकार ने 'पद्म-विभूषण' की उपाधि से अलंकृत किया था।

दिसंबर सन १९६४ में गुप्त जी ७८ वर्ष की आयु में गोलोक शारीर हुए। •

## मैथिलीशरण गुप्त




जन्म : सन १८८६

निधन : सन १९६४









## जयशंकर 'प्रसाद'

गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से महान् कृतियों की रचना करने के कारण हिन्दी के महाकवि जयशंकर 'प्रसाद' के यश का हिन्दी साहित्य में सदा डाका बजता रहेगा।

प्रसाद जी की अमर काव्यकृति 'कामायनी' को आधुनिक युग का महाकाव्य माना गया है। प्रसाद जी के काव्य से जहाँ हिन्दी में नवयुग का प्रारंभ होता है वही उनका ललित गद्य और विशेषकर कहानियों व नाटकों ने भी असाधारण शिखर-स्थान प्राप्त किया है।

काशी के 'सुधनीसाहु' नामक प्रसिद्ध वेश्य धराने में सन् १८८६ में जन्म लेकर प्रसाद जी जीवन पर्यंत काशी की साहित्यक परम्परा के प्रतीक बनकर रहे। आप की शिक्षा वर्दीस कालेज, वाराणसी में हुई, पर स्वाध्याय से ही आप ने संस्कृत, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। पुरातत्व, दर्शन, पुराण, भारतीय संस्कृति, वैदिक साहित्य और इतिहास में आपको विशेष रुचि थी।

आप की गद्य-पद्य रचनाओं की संख्या काफी है। कामायनी, लहर, आँसू, चन्द्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, कंकाल, आकाशदीप, छाया आदि आपके लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं।

मूलरूप से प्रकृति के कवि होने के कारण प्रसाद जी के गद्य पर भी उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट आप हैं।

प्रसाद जी भारतीय मंस्कृति और सम्यता के महान् हिमायती थे।

मात्र अड़तालिस वर्ष की आयु पायी आपने और सन् १९३७ में आप के निधन से हिन्दी साहित्य का गरिमामय व्यक्तित्व खो गया। •




जन्म : सन् १८८६  
निधन : सन् १९३७









द्विवेदी-युग की दुपहरी और सौभ, स्थायावाद का उदय और अवसान तथा प्रगतिवाद का सवेरा-हिन्दी के तीन युगों को अपनी चमत्कारी लेखनी से नापने वाले कविवर पं० मासनलाल चतुर्वेदी मुख्य रूप से राष्ट्रीय कवि, प्रखर सम्पादक और निर्भीक वक्ता थे ।

आप का जन्म सन् १९६६ में मध्यप्रदेश के होशंगावाद जिले के बावई ग्राम में हुआ था । आप की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई । जीवन की तरणाई में ही आप ज्ञानिकारी दल में शामिल हो गए । आगे चल कर आप गांधीवाद के सबल भमर्यक और मध्यप्रदेश के राजनेता सिद्ध हुए । अनेक बार राष्ट्रीय आन्दोलनों में जेल भी गए ।

आप का साहित्यिक जीवन एक ओजस्वी राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रारंभ हुआ । प्रापने बहुत सी रचनाएँ 'एक भारतीय आत्मा' उपनाम से भी लिखी । आप स्व० गणेशाशंकर विद्यार्थी से बहुत प्रभावित थे । आप ने 'प्रभा' और 'कर्मवीर' का अनेक वर्णों तक साम्पादन भी किया ।

नए लेखकों व कवियों को सीमाहीन प्रोत्साहन और प्रेरणा देना आप की विदेशीता थी । आज के कितने ही प्रमिद्ध कवियोंने लेखकों के आप काव्य-गुरु और प्रेरणा-स्रोत रहे हैं ।

भारत सरकार ने आप को 'पद्मभूषण' की उपाधि से अवृक्षत किया ।

आप की प्रमुख रचनाएँ हैं—हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता, साहित्य देवता श्रादि ।

आप जैसा ओजस्वी भाषणकर्ता दूसरा नहीं । आप की वाणी फौलाद उगलती थी, क्रान्ति की सृष्टि करती थी ।

३० जनवरी सन् १९६८ को आप का देहान्त हो गया । •


माखनलाल  
चतुर्वेदी




जन्म : सन् १९६६  
निधन : सन् १९६८









हिन्दी के एकमात्र और सिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में श्री वृन्दावनलाल वर्मा का आपना अद्वितीय और महान व्यक्तित्व रहा है।

झाँसी जिले के प्रसिद्ध मऊरानीपुर कस्बे के एक सम्पन्न परिवार में सन १८८३ में आप का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा ललितपुर में किर ग्वालियर में हुई और वकालत आप ने आगरा विश्वविद्यालय से पास की।

झाँसी के निवासी और सफल कानून पंडित, बबील और अपने व्यस्त पेशे से समय निकाल कर आप जीवन भर साहित्य सेवा करते रहे।

लगभग दो दर्जन बड़े उपन्यासों, इतने ही नाटकों और पचासों वाहनियों के रूप में आप का मीलिक साहित्य लगभग पन्द्रह हजार पृष्ठों का है।

अपने बाल्यकाल में जब आप नवी कक्षा के छात्र थे तभी से लिखना प्रारंभ किया और सन १९०० में प्रथम हुति 'सेनापति ऊदल' नामक नाटक के प्रकाशन के बाद ही सरकार ने उसे जप्त कर लिया था। अपनी रचनाओं द्वारा आपने भारत के गौरवमय ग्रीति को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया है। इतिहास को 'विना तनिन भी तोड़े, साहित्य में इतिहास का सत्य और साहित्य का आनन्द देने की समान रूप से रखा करना आप की सफल लेखनी की ही सामर्थ्य है।

आप के सभी उपन्यास अत्यन्त लोकप्रिय हुए हैं। झाँसी की रानी, मृगनयनी, गढ़कुड़ार, कचनार, विराटा की पर्यानी आदि उपन्यासों की तुलना विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों से को जा सकती है।

२३ फरवरी १९६६ को आप का देहान्त हुआ। लगभग पंसठ वर्षों तक लगातार लेखन कार्य में रत अस्सी वर्षीय वर्मा जी जीवन के अन्त तक थके नहीं थे और उनमें युवकों जैसा साहित्यिक उत्साह बना रहा। ●

## वृन्दावनलाल वर्मा




जन्म : सन १८८३  
निधन : सन १९६६









हिन्दी के वयोवृद्ध लेखकों में राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह का उनकी अद्भुत और शोजस्वी लेखनी के कारण बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

आप का जन्म सन १९६१ में सूर्यपुरा (आरा, बिहार) के राजवंश में हुआ था। आप की शिक्षा, सूर्यपुरा, आरा, पटना, कलकत्ता, आगरा और इलाहाबाद में हुई। सन १९९३ में आप की पहली कहानी 'कानो में कंगन' हिन्दी में छपी। यह अपने ढंग की अनूठी कहानी है।

राजा साहब की उर्दू की चाशनी से पगी सजीव भाषा और अपने ढंग की अनूठा शैली से सारा हिन्दी सासार मुख्य था। आजतक आप की शैली की नकल भी कोई नहीं कर सका। अनूठी शैली के कारण आप को हिन्दी का गद्य-कवि की कहा जाता है।

आपने मुख्यतया नाटक, सस्मरण, कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं। आप के संस्मरण भी हिन्दी में अपने तर्ज के विल्कुल अनूठे और निराले हैं। 'जानी-मुनी-देखी' पुस्तकमाला के नाम से आपने एक दर्जन उपन्यास-नुमा लम्बे सस्मरण लिखे हैं जो विश्व-साहित्य में भी अपनी नवीनता के लिए अलग स्थान पावगे। 'राम रहीम' नामक आपके बहुत उपन्यास ने प्रकाशन के बाद तहलका मचाया था।

पुरी अद्देशतान्दी से अधिक समय तक साहित्य-सेवा में रत रहने पर भी राजा साहब जीवन के अन्त तक थके नहीं थे। सन १९७१ में द१ घण्टे की आयु में आप का देहान्त पटना में हुआ।


मात्र शैली की विशेषता के कारण साहित्य में अनूठा स्थान बना कर सदा अमर रहने वाले राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह जैसा दूसरा उदाहरण नहीं है। \*

## राधिकारमण प्रसाद सिंह




जन्म : सन १९६१  
निधन : सन १९९३









हिन्दी में राहुल सांकृत्यायन जैसा विद्वान्, धुमकड़ तथा 'महापंडित' की उपाधि से स्मरण किया जाने वाला दूसरा नाम न मिलेगा।

आप का जन्म सन १८६३ में आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के पंदहा ग्राम में एक कुलीन द्वार्हण-परिवार में हुआ था।

आप को नियमित शिक्षा का भवतर प्राप्त न हो सका पर स्वाध्याय से आप ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, संस्कृत, वेद, दर्शन और विश्व की प्रनेक भाषाओं में पांडित्य प्राप्त किया।

राहुल सांकृत्यायन तो उनका अपना दिया नाम था। असली नाम था—केदारनाथ पाण्डेय। कुछ वर्षों तक वे रामोदर स्वामी के नाम से भी जाने जाते थे।

बाल्यकाल से ही भ्रमण के लिए निकले राहुल जी जीवन भर कहीं एक स्थान में जम कर रहे न सके। स्वदेश ही नहीं, विदेशों में जैसे नेपाल, तिब्बत, लंका, रस, इंगलैंड, योरप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, ईरान और चीन में ये कितना घूमे, इसका ठीक हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये सभी साहित्यिक-नामांगण थीं।

साहित्यिक जीवन सन १८२६ में शुरू हुआ। आप के रखे प्रथमों की संख्या १५० के ऊपर है तथा सभी की कुल वृष्टि संख्या एक लाख से अधिक ही है। राहुल जी के मौलिक तथा अनूदित ग्रंथों में उपन्यास, कोश, राजनीति, जीवनी, दर्शन, भ्रमण, धर्म, नाटक, विज्ञान, इतिहास और संस्कृति आदि विषय हैं।

सन १८६३ में लम्बी बीमारी के बाद दिल्ली में आप का देहान्त हुआ।

हिन्दी इतिहास में राहुल जी जैसा विद्वान् और कर्मठ व्यक्ति दूसरा होना असंभव है। \*

## राहुल सांकृत्यायन




जन्म : सन १८२६  
निधन : सन १८६३









प्रेमचन्द्र और प्रसाद के समकालीन लेखकों व सम्पदकों में आचार्य शिवपूजन सहाय का अन्यतम स्थान है।

आरा (विहार) के एक गीत में आप का सन १८६३ में जन्म हुआ था। आप का मुख्य कार्य—शेत्र पटना ही रहा।

आप की सेवाएँ हिन्दी-पञ्चकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सथा आविस्मरणीय हैं। मारवाड़ी सुधार, भटवाला, आदर्श, उपन्यास तरंग, समन्वय, माधुरी, गग, जागरण, बालक और साहित्य नामक पत्रिकाओं के सफल सम्पादक के अलावा आपने 'द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ' तथा 'राजेन्द्र अभिनन्दन ग्रन्थ' जैसे विशाल ग्रंथों का भी सम्पादन किया।

आप ने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। 'दो घड़ी' और 'विभूति' नामक दो कहानी-संग्रह तथा 'देहाती-दुनिया' नामक प्रथम औचित्क उपन्यास आप के प्रसिद्ध हैं। आप की समस्त रचनाएँ चार लण्ठों में 'शिवपूजन रचनावली' के नाम से विहार राष्ट्रभाषा परिपद द्वारा प्रकाशित हुई हैं।

आचार्य शिवपूजन सहाय का समस्त जीवन मात्र साहित्य सेवा में ही वीता। विहार साहित्य सम्मेलन और विहार राष्ट्रभाषा परिपद नामक हिन्दी की दो विशाल व सम्मानित संस्थाएँ आप के कीर्ति-कर्म के आदर्श उदाहरण हैं।

सन १९६३ में आप का पटना में देहान्त हुआ।

हिन्दी के लिए शिवपूजन जी का त्यागभय जीवन एक उदाहरण है और आपका व्यक्तिगत जीवन तप व साधना तथा सादगी का एक आदर्श नमूना है। \*


## शिवपूजन सहाय




जन्म : सन १८६३  
मिथन : सन १९६३









राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के भनुज सियारामशरण गुप्त वह मुखी प्रतिभा के साधुमना, सरल कलाकार थे ।

आप का जन्म सन १८६५ में चिरगाव (झोसी) में हुआ था । आपने अपना समस्त जीवन अपने अग्रज—मैथिलीशरण गुप्त के सहयोग में लड़ाने की भाँति काटा और कभी प्रसिद्धि व सम्मान के प्रति लालायित नहीं हुए ।

मूलरूप से आप एक कवि ही थे पर सरल व मानिक गद्य लिखने में भी आपको कोई पा नहीं सकता । कवि, कथाकार, निवधकार के रूप में आपका हिन्दौ में विशिष्ट स्थान है । आप के जीवन की सरलता और विनयशीलता आप के साहित्य में भी पूणे रूप से परिलकित होती है । आप की लेखन-शैली पर गांधी-दर्शन का पूरा प्रभाव है ।

आप की लगभग पच्चीस काव्य-कृतियाँ, तीन उपन्यास, एक कहानी संग्रह प्रकाशित और प्रचलित हैं । कहाना आप को रचनाओं में विशेष रूप से प्लायित है । आप के निवय भी कम रोचक नहीं हैं । आपने नाटक भी लिखे हैं ।

आप के प्रमुख प्रथों के नाम हैं—मौर्यविजय, आद्रा, पायेप, आत्मोत्सर्ग, मृणयी, वापू, उन्मुक्त, नवुल, गोद, नरी, मानुषी और फूठ-सच आदि ।

सन १९६३ में आपका देहान्त हुआ ।

प्रचार और चर्चा से दूर, समस्त जीवन एकाग्रचित्त साहित्य साधना में रत रहते वाले सियारामशरण गुप्त का सदा आदर से स्मरण किया जाएगा । \*

## सियारामशरण गुप्त




जन्म : सन १८६५  
निधन : सन १९६३









‘निराला’ उपनाम से हिन्दी साहित्य में युगान्तरकारी रचना करने वाले श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी इस शताब्दी के सबसे प्रधिक प्रेरणादायक युगप्रवर्तक महाकवि व साहित्यकार हैं।

माहित्य की प्रचनित विधाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने वाले, जीवन शैली के विधायक निराला जी का व्यक्तित्व भी अतिशय विद्रोही और क्रान्तिकारी तत्वों से निर्मित हुआ था।

जिला उद्घाव (उत्तर प्रदेश) के निवासी पर जन्म हुआ सन १९६६ में वंगाल के महिपादल राज में और प्रारंभिक जीवन में वंगाली मातृभाषा थी। हिन्दौ के प्रति अनुराग और हिन्दी की विद्वता बाद में आपने स्वतः अर्जित की।

सन १९६६ के लगभग आप की रचनाएँ प्रकाश में आने लगी थीं। आप की रचनाओं में एक विशेष तीसापन है जो उनके विद्रोही भन की सदा याद दिलाता रहता है।

समन्वय, मतवाला, रंगीला, मुधा आदि पत्रों का अपने सम्पादन तथा विवेकानन्द, वकिमचन्द्र चटर्जी की रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद भी किया।

आप की काव्य-कृतियाँ से हिन्दी की काव्यधारा को नई दिशा मिली। हिन्दी काव्य को छंदमुक्त करने का श्रेय आप को ही है। काव्य के धलाका आपने उपन्यास, कहानी, निवंध आलोचना और संस्मरण भी लिये हैं।

आप की प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं—परिमल, तुलसीदास, राम की शक्तिपूजा, कुकुरमुता और गद्य कृतियाँ हैं—अलका, निरपमा, कुल्लीभाट, विलेसुर बकरिहा, प्रवंध प्रतिमा आदि।

लम्बी भानसिक व शारीरिक शिथिलता के बाद जब सन १९६९ में आप का देहान्त हुआ तब हिन्दी का एक संघर्ष-युग से समाप्त हो गया।


निराला का जीवन संरथों का एक इतिहास है। जीवन में एक दिन भी चैन न पाने वाले ऐसे संघर्षरत महाकवि की जीवन-कथा भी एक करूण महाकाव्य है। ●

## सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’




जन्म : सन १९६६  
निधन : सन १९६९









वयोवृद्ध राष्ट्रीय नेता, हिन्दी आनंदीलन के प्रमुख सेनानी, प्रसिद्ध नाटककार, विद्वान् सेठ गोविन्ददास का हिन्दी-जगत में बड़ा सम्मानीय स्थान है।

सन् १९६६ में जबलपुर के अत्यन्त सम्पन्न व वैभवशाली परिवार में आप का जन्म हुआ। आप की शिक्षा योग्य शिक्षकों की देख रेख में पर पर ही हुई। आप ने हिन्दी के अलावा अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया।

साहित्य रचना के प्रति प्रारंभ से ही रुचि रही। बारह वर्ष की अल्पायु में ही 'चम्पावती' नामक एक तिलसमी उपन्यास की रचना की। बाद में नाटक-रचना की ओर बड़े और अब तक छोटे-छोटे लगभग एक सौ नाटकों की रचना की। 'इन्दुमती' नामक हजार पृष्ठों का एक वृहदकाय उपन्यास भी आपने लिखा जिसमें भाँति की राजनीतिक व सामाजिक हलचलों का विस्तृत वर्णन हुआ है। आपने यात्राएँ खूब की हैं और यात्रा-वृत्तांत तथा संस्थरण और आत्मकथा भी लिखा है। लेकिन हिन्दी साहित्य में आप की विशेष प्रतिष्ठा एक सप्ताह नाटककार के रूप में ही है।

आप के प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं—कर्तव्य, कुलीनता, हर्य, शशिमुत्त, शेरशाह, अशोक, विश्वासघात, सिंहलद्वीप, पाकिस्तान, सेवापथ, संतोष कहाँ, विकाम आदि।

आप ने जीवन का अधिकांश भाग राष्ट्र-सेवा में लगाया। १९३० में सर्वप्रथम बार जेल गए, बाद में कई बार जेलयात्रा की। आप प्रारंभ से ही भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य हैं। संमद द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत कराने में आप का योगदान और संघर्ष निरस्मरणीय है।


भारत सरकार ने आप की राष्ट्रीय एवं साहित्यिक सेवाओं के लिए आपको 'पद्मभूषण' की उपाधि से अलंकृत कर के सम्मान प्रदर्शित किया है।

## सेठ गोविन्ददास




जन्म : सन् १९६६









आधुनिक युग में साहित्य-जगत के मध्यसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले महाकवि सुमित्रानन्दन पंत छायावाद के आधार-स्तंभ माने जाते हैं।

व्यक्तित्व में आकर्षक प्रकृति के सुकुमार कवि और काव्य के अन्यतम शिल्पी पंत जी आज हिन्दी के गोरख बन गए हैं।

आप का जन्म मन १९०० में कूमारचल प्रदेश के कोयानी ग्राम में हुआ था। आप का बचपन प्रकृति के सुहावने वातावरण में बीता। आप की शिता अल्मोड़ा और प्रयाग में हुई। आप ने असद्योग आनंदोलन से प्रभावित होकर पटाई छोड़ी और राजनीति के प्रति अस्त्रन्त जागरूक रह कर भी अपनी कोमल प्रकृति व सरल स्वभाव के कारण राजनीति में मकिय भाग न ले मके।

आप पर गाँधी जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और योगिराज अरविंद वा बहुत प्रभाव रहा है। आप ने हिन्दी के अलावा अंग्रेजी, मंस्कृत और दंगला भाषा का गहन अध्ययन किया है। आप छायावाद और प्रशिवाद के अग्रदूत माने जाते हैं।

आप के प्रसिद्ध काव्यग्रंथों की संस्था पचवीस से अधिक है और उनमें प्रमुख हैं—वीणा, ग्रथि, पल्लव, रंगन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, स्वर्णविरण, उत्तरा, रजतशिवर, अतिमा, मौखण, ज्योत्सना, ग्रंथि, लोकायतन, शत्रवनि आदि।

आप के काव्य व्यक्तित्व की गरिमा के सम्मान में भारत मरकार ने आप को 'पदाभ्युपण' की उपाधि से अलंकृत किया है।

पंत जी अस्त्रन्त सुकुमार, मरल-हृदय, प्रकृति के कोमल कवि, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और भारतीय नवचेतना के अग्रदूत हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को पा कर हिन्दी साहित्य अमर हुआ है। पंत जी हिन्दी की गरिमा के प्रतीक-रूप है। ●

## सुमित्रानन्दन पंत









उग्र जी हिन्दी साहित्य में ग्रोजपूर्ण व्यक्तित्व, निर्भकता और स्पष्टवादिता के प्रतीक-मुरुप रहे हैं।

'उग्र' नाम हिन्दी कथा-साहित्य में एक विशेष व शाकर्यक शैली के 'ट्रैडमार्क' की तरह लिया जायगा।

'उग्र' उपनाम था, असली नाम था-पाण्डेय वेचन शर्मा। 'उग्र' उपनाम उनके स्वभाव की उग्रता का प्रतीक था।

उत्तर प्रदेश के चुनार शहर में सन १९०० में जन्म। प्रारंभिक शिक्षा काशी में। प्रारंभ से ही आप शद्वितीय प्रतिभा के मालिक थे। दियार्थी जीवन में ही नाटक-मंडलियों के निकट सम्पर्क में रह कर जीवन की विविधता का अनुभव पाया। असहयोग के दिनों में पढ़ाई को सदा के लिए त्याग कर साहित्य-सेवा में लग गए। किशोरावस्था में ही आप के उत्कृष्ट एवं उद्दट विचारों से भरे लेख पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगे तभी लोगों ने आप की विराट प्रतिभा के दर्शन पा लिए थे। आप के लेखों ने प्रारंभ से ही तहलका मचाना शुरू किया था।

उग्र जी काफी समय तक 'मतवाला' के सम्पादकीय विभाग से जुड़े रहे। एक बार बंबई के सिने-जगत में भी झाँक आए थे।


आप की पहली रचना १९२२ में प्रकाश में आई। आपने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक एवं प्रहसन की रचना की। बुधुआ की बेटी, प्रद्यूम, चाकलेट आदि आप के प्रसिद्ध उपन्यास हैं।

उग्र जी की कहानियाँ हिन्दी कथा-साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

निर्भीक वयार्यवादी होने के कारण सामाजिक तुराइयों का यथावत चित्रण करने में आप कभी नहीं हिचके। आप की रचनाओं में आप की निवृत्त मस्ती भलकती है। समाज और धर्म में फैले पालण्ड तथा राजनीतिक अन्याय पर निर्मम प्रहार करने का जो अपूर्व साहस आप में था, वैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं।

हिन्दी कथा-साहित्य में अपनी लासानी शैली के कारण आप का अमर व शद्वितीय स्थान है।

सन १९६६ में आप के निधन से हिन्दी-जगत का द्वितीय व्यक्तित्व तथा वैतालिक सदा के लिए खां गया। ●



## पाण्डेय वेचन शर्मा ‘उग्र’




जन्म : सन १९००

निधन : सन १९६६









## रामवृक्ष वेनीपुरी



हिन्दी-जगत के मस्त-मौना, अदम्य उत्साही, विर-जवान और  
बर्मंठ व्यक्तित्व वाले बेनीपुरी जी का अपना एक युग था, उनका  
अपना एक श्लेष रंग था।

उत्तर बिहार के बेनीपुर ग्राम (मुजफ्फरपुर) में सन १९०२ में  
एक किसान परिवार में जन्म लेकर अधिक शिक्षा न पा सके और  
समस्त जीवन देश-सेवा तथा साहित्य-सेवा में ही लगाया।

राजनीति में पूरी तरह डूबे रहने के कारण आपकी रचनाओं में  
राजनीतिक चेतना को प्रमुखता मिली है। आप की रचनाओं में  
भारत का गीव और ग्रामीण ममाज अमरता पा गया है।

आप ने शब्दचित्र, रेखाचित्र, मंस्मरण, नाटक, उपन्यास और  
कहनियाँ लिखी हैं। अपनी विशिष्ट शैली के कारण आप की  
भाषा में एक चित्र मणिवता और अद्भुत शाकरण मिलता है।

आप्नी आनंदोलनों से जुड़ कर आप ने लगभग दस वर्ष जैन में  
काटे। आप भारत में समाजादी आनंदोलन के उन्नायक तथा  
संस्थापकों में से थे।

आप कुशल सम्पादक भी थे। वालक, युवक, योगी, हिंसात्य,  
चुनून-मूर्छा और नई धारा के सम्पादन में आपने अभूत यंत्र अर्जित  
किया।

लालतारा, मेहू और गुलाब, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की  
मूरते, विजेता, पैरों में देख बांधकर आदि आप की अमर कृतियाँ  
हैं। आप की रचनाओं का संकलन भी 'बेनीपुरी ग्रंथावली' के रूप में  
प्रकाशित हुआ है।

आप ने दो बार विदेश यात्रा भी की।

सन १९६८ में लम्बी बीमारी के बाद आप का देहान्त हुआ।

बेनीपुरी हिन्दी की मस्ती के प्रतीक थे। ●

जन्म : सन १९०२  
निधन : सन १९६८

$\omega = \omega_0$


$\frac{1}{\tau}$

$\omega = \omega_0$

$\omega_0$







हिन्दी के मनोवैज्ञानिक कथाकारों में श्री इलाचन्द्र जोशी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है।

आप का जन्म सन् १९०२ में भल्मोड़ा के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। भल्मोड़ा में ही आप की प्रारंभिक शिक्षा हुई। नियमित शिवाय भाषिक न चल सकी। यों आप हिन्दी, संस्कृत और वंगला के अच्छे विद्वान हैं। भ्रंगेजी के अलावा फैंच और जमन आदि विदेशी भाषाओं का भी आप ने अच्छा अध्ययन किया है।

जोशी जी ने अपना साहित्यिक जीवन एक कुशल कवि के रूप में प्रारंभ किया था, लेकिन आगे चलकर आप की समस्त काव्य-प्रतिभा आप के गद्य-साहित्य में ही केन्द्रीकृत हो गई। इसीलिए आप के गद्य को पढ़ते समय काव्य के समस्त रसों का रसास्वादन हो जाता है।

गण-रचना में मनोवैज्ञानिक विलेपण आप का प्रिय और प्रमुख विषय रहा है। मानव जीवन के साधारण और असाधारण मनोविज्ञान का और उसके प्रभाव का चित्रण आप की अपनी विशेषता है।

विदेशी साहित्य के गहन-अध्ययन के कारण आपकी ऐसी हिन्दी के अन्य लेखकों से सर्वथा भिन्न, सदा अलग दिखाई पड़ती है।

जोशी जी ने मुख्यरूप से कहानियाँ और उपन्यासों की रचना की है। आप आज के युग के अधेष्ठतम उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। निर्वासित, पर्दे की रानी, प्रेत और ध्याया, मुक्ति पथ, भ्रतुचक्र आदि आप के विश्वात उपन्यास हैं।

स्वभाव से अंभीर तथा अविकृत द्वावस्था में भी साहित्य में एक नए आगान्तुक की तरह ही नवीनता के प्रति चिरञ्जिनीक बने रहते हैं। यही शायद उनकी विरन्वीनता की कुंजी है। ●

## इलाचन्द्र जोशी




जन्म : सन् १९०२









हिन्दी नाटक-साहित्य के भंडार को अनेक प्रमिद्ध कृतियों ने सजाने वाले पर्षं लक्ष्मीनारायण मिथ्र का आधुनिक नाटककारों में प्रमुख स्थान है।

सन १९०३ में श्राजमगढ़ जिले (उ० प्र०) के वस्ती नामक ग्राम में आप का जन्म हुआ।

आप की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में हुई तथा बाद में आप ने सेन्टल हिन्दू कालेज, वाशी से बी० ए० पास किया।

काशी में रहते हुए आप को काशी के माहितिक वातावरण में धुल-मिल जाने का पूरा अवसर मिला और तभी आप को साहित्य से अधिकावि भी हुई। अट्टारह वर्ष की आयु से ही आप साहित्य-मृजन में लगे और प्रारंभ में काव्य की ओर झुकाव हुआ। 'अन्तजंगत' नामक काव्य-कृति आप की प्रथम कृति है। परन्तु शीघ्र ही आप काव्य-मृजन से चिमुख हो गए और आप की नाटकीय-प्रतिभा का विकास हुआ और शीघ्र ही आप प्रतिष्ठित नाटककार मिद्द हुए। आप की प्रथम नाट्य-कृति 'शर्मोक' है।

आप ने अब तक अनेक एकांकियों और दो दर्जन के लगभग नाटकों का मृजन किया है। जिनमें प्रमुख हैं—सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुकित का रहस्य, राज योग, नारद वीणा, वत्मराज, जगद्गुरु, चत्राव्यूह, सिन्दूर की होली, आधी रात आदि।

'सेनापति वरण' नामक महाकाव्य की भी आप ने रचना की है।

इसने के नाटकों का भी आप ने हिन्दी में अनुवाद किया है। इसने और वर्नांड शा का आप पर गहरा प्रभाव है।


भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम चित्रण आप के नाट्य-साहित्य की प्रमुख विशेषता है। आज भी आप की लेखनी मृजनशोल है। ●

## लक्ष्मीनारायण मिथ्र



जन्म : सन १९०३





हिन्दी नाटक-साहित्य के भेंटोर की अनेक प्रमिद्ध कृतियों में सजाने वाले पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र का आधुनिक नाटककारों में प्रमुख स्थान है ।

मन १६०३ में आजमगढ़ जिले (उ० प्र०) के वस्ती नामक ग्राम में आप का जन्म हुआ ।

आप की प्रारंभिक शिक्षा भौव में हुई तथा बाद में आप ने सेन्ट्रल हिन्दू कालेज, काशी से बी० ए० पास किया ।

काशी में रहते हुए आप को काशी के साहित्यिक वातावरण में धुल-मिल जाने का पूरा अवसर मिला और तभी आप को साहित्य से अभिवृच्चि भी हुई । अट्टारह वर्ष की आयु से ही आप साहित्य-सूजन में लगे और प्रारंभ में काव्य की ओर भुक्तव हुआ । 'अन्तजगत' नामक काव्य-कृति आप की प्रथम कृति है । परन्तु शीघ्र ही आप काव्य-सूजन से विमुक्त हो गए और आप की नाटकीय-प्रतिभा का विकास हुआ और शीघ्र ही आप प्रतिष्ठित नाटककार मिद्द हुए । आप की प्रथम नाट्य-कृति 'आशोक' है ।

आप ने अब तक अनेक एकांकियों और दो दर्जन के लगभग नाटकों का सृजन किया है । जिनमें प्रमुख है—सूर्यसी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राज योग, नारद की धीणा, वत्सराज, जगद्गुरु, चक्रव्यूह, सिन्दूर की होली, याधी रात आदि ।

'सेनापति कर्ण' नामक महाकाव्य की भी आप ने रचना की है ।

इसन के नाटकों का भी आप ने हिन्दी में अनुवाद किया है । इसन और बनाई शा का आप पर गहरा प्रभाव है ।

भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम चित्रण आप के नाट्य-साहित्य की प्रमुख विशेषता है । आज भी आप की लेखनी सृजनशील है । •

## लक्ष्मीनारायण मिश्र




जन्म : सन् १६०३









## भगवतीचरण वर्मा



प्रेमचंद के बाद के कथाकारों में श्री भगवतीचरण वर्मा का बड़ा महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान है। कुशल कवि, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में आप समान रूप से प्रसिद्ध हैं।

आप का जन्म सन १९०३ में झज्जीपुर (उन्नाव, उ० प्र०) में हुआ था। इलाहाबाद विद्यविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आप ने वकालत भी पास की, लेकिन साहित्य के प्रति गहरी रुचि के कारण वकालत का पेशा कभी अपना न सके और सारा जीवन साहित्य-सेवा में ही लगे रहे।

आप का साहित्यिक जीवन एक कवि के रूप में प्रारंभ हुआ लेकिन कथाकार के रूप में आप अधिक प्रसिद्ध और सफल हुए। आप की प्रथम औपन्यासिक हृति 'चित्रलेखा' अपनी कथा-वस्तु, शिल्प, भाषा और प्रभावशाली चित्रण के कारण हिन्दी की प्रथम कोटि की अद्वितीय रचना सिद्ध हुई। बाद में आप ने अनेक उच्चकोटि की उपन्यासों की रचना की जिनमें तीन वर्ष, टेङ्गे मेडे रास्ते, भूलं बिसरे निम्र, रेता, सीधी सच्ची बातें आदि प्रमुख हैं।

आप की कहानियाँ भी अपनी नवीनता तथा शिल्प के कारण बहुत प्रसिद्ध हुई हैं।

समाज के विभिन्न पहुंचों का चित्रण करते हुए बहुत तीखा और कट्टु व्यंय करना आप की शैली की विशेषता है।


प्रेमचन्द के बाद भगवतीचरण वर्मा ही हिन्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार है। ●

जन्म : सन १९०३









हिन्दी की राष्ट्रीय चेतना की सम्मानित कवियित्री श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का नाम बहुत आदर और अद्वा से लिया जाता है। स्वातंश्चन्संग्राम-युग में आप की अमर काव्य रचना 'झाँसी की रानी' देश का कज़हार बन गई थी।

आप का जन्म सन १९०५ में इलाहाबाद में हुआ था। आपने प्रयाग में ही शिक्षा पायी और खण्डवा निवासी ठाठ लक्ष्मण सिंह चौहान से विवाह होने के बाद आपका कार्यक्षेत्र जबलपुर (म० प्र०) रहा।

साहित्य सूजन के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय भाग लेने वाली सुभद्रा जी मध्यप्रदेश विधान सभा की सदस्या भी रही है।

सुभद्रा जी की प्रसिद्धि मुख्यता एक महान और ओजस्विनी कवियित्री के रूप में ही अधिक है, परन्तु आपकी विलोक्यकाहनियां भी अपनी कल्पना, मार्मिकता और भावुकता के लिए कम प्रसिद्ध नहीं हैं। आप की कहानियों पर आपको हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सेक्सिरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

भुजुल, विखरे भोती और उन्मादिनी आदि आप के प्रमुख ग्रंथ हैं।

सन १९४८ में नागपुर से जबलपुर की यात्रा के समय मोटर दुर्घटना की आप शिकार हो गई, यह हिन्दी का बड़ा दुर्भाग्यकाण था। सुभद्रा जी को यदि लम्बी आयु मिली होती तो हिन्दी और राष्ट्र का बहुत कल्याण होता।

सुभद्रा जी जैसी महान व्यक्तित्व वाली तथा प्रतिभाशालिनी महिला दूसरी नहीं। ●

## सुभद्राकुमारी चौहान




जन्म : सन १९०५  
निधन : सन १९४८









भारत में मशस्त्र प्रांति के नायक 'यशपाल' का नाम एक जमाने में शंखेजो राज्य के लिए आतंग था। स्वर्णश्य-संवाम-युग में यशपाल के नाम से भारत का युद्ध-वर्ग प्रेरणा लेता था। वही यशपाल जब साहित्य-श्रेष्ठ में आए तो साहित्य-जगत में भी एक नई प्रांति का सूचिपात हुआ।

आपका जन्म मन १९०४ में किरोजपुर (पंजाब) में हुआ था। शिक्षा, गुरुकुल कांगड़ी और नेशनल कालेज, लाहौर में हुई। विद्यार्थी लीवन में ही आपका सम्पूर्ण ग्रान्तिकारी दल से हो गया और शीघ्र ही आप शहीद भगत सिंह और चन्द्रघेवर आजाद के विश्वासपात्र सहयोगी बन गए। शंखेजो भरपार ने आप पर राजदौह का मुकदमा चलाकर अत्रजीवन बातरावास वर दण्ड दिया था। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद आप काराबाग से मुक्त हो सके।

काराबास से छूट कर यशपाल ने लखनऊ से 'विष्वल' नामक उप्र विचारधारा के मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया।

यशपाल ने सैकड़ों बहानियाँ और दर्जनों उपन्यास लिये हैं। यथार्थवादी परम्परा के आप प्रमुख लेखक हैं। आप की प्रमुख रचनाएँ हैं—दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के हृष, ज्ञान-दान, भूषा-सच, अभिगम, धर्मयुद्ध और सिंहावलोकन आदि।

आप की कृतियों का हमी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। 'भूठा-मच' आपका एक वृहत् आशुनिक गुरुत्व इतिहास ही उपन्यास है जो आपकी अमर रचना है।

यह कहना अनुचित न होगा कि भविष्य में आज का हिन्दी कथा-युग-'यशपाल-युग'-के नाम से ही पुकारा जाएगा। •


## यशपाल











## जैनेन्द्र कुमार

प्रेमचन्द के बाद हिन्दी कथा-साहित्य में जैनेन्द्र कुमार का ही नाम सब से महत्व का माना जाता है। प्रेमचन्द के युग के प्रतिनिधि कथाकार होने के साथ ही आप अपनी विशेषताओं के कारण किसी बाद या युग-विशेष से बेवध नहीं मिले।

सन् १९०५ में काँडिया गंज, जिला अलीगढ़ के एक मध्यवर्गीय परिवार में आप का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा जैन गुहाकुल, हस्तिनापुर में हुई और मैट्रिक के पश्चात दो वर्ष काशी विश्वविद्यालय में अध्ययन करके बाद अस्थयोग आनंदालन में शामिल होकर पढ़ाई से विरक्त हो गए।

आप की पहली कहानी 'खेल' सन् १९२८ में 'विशाल भारत' में छापी। तथा आप का प्रथम उपन्यास 'परख' भी लगभग इसी समय प्रकाशित हुआ था।

कई वर्षों तक आप प्रेमचन्द जी के माथ और उनके बाद अकेले भी 'हेतु' का सम्पादन करते रहे।

आप ने अनेक कहानियों और दर्जनों उपन्यासों की रचना की है। आपकी प्रसिद्ध कृतियों के नाम हैं—परख, मुनीता, त्यागपद, सूखदा, जयवद्देन, जयसंधि, जड़ की बात, विवर्त, व्यनीन, ये और बेतथा समय और हम आदि।

जैनेन्द्र कुमार का नाम हिन्दी कथा-सेत्र में ऐनिहासिक महत्व का है। ●




जन्म : सन् १९०५









हिन्दी में आयुर्विक एकांकी के जनक डा० रामकुमार वर्मा बहुमुली प्रतिभा के जागरूक कलाकार है। कवि नाटककार, साहित्य-इतिहासकार, आलोचक और अध्यापक के रूप में आप का यथेष्ट सम्माननीय स्थान है।

आपका जन्म सन १९०५ में मध्यप्रदेश के सागर जिले में एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। आप की शिक्षा सागर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से आप ने 'डाकट' ली। और सारा जीवन साहित्य रचना और अध्यापकी में लीन रहे।

वर्मजी को प्रारंभ से ही सांस्कृतिक व साहित्यिक वातावरण मिला था। आपने विद्यार्थी जीवन में ही 'कुमार' उपनाम से काव्य रचनाएँ प्रारंभ कर दी थीं। प्रारंभ में आप को अभिनय- कला से बहुत सच्ची जी वाद में प्रस्थात नाटककार के रूप में प्रस्तुटि हुई।

आप के एकांकियों की संख्या एक सौ लगभग है तथा नाटकों की संख्या दर्जनों में है। मन १९२२ से आप भी रचनाएँ लगातार प्रकाशित होती आ रही हैं।

आपके प्रमिद्ध प्रथमों में से प्रमुख हैं—चित्ररेखा, साहित्य समालोचना, कवीर का रहस्यवाद, हिन्दी भाषिय का आलोचनात्मक इतिहास, जोहर, रेशमी टाई, गिवाजी, रूपरंग, रिमझिम और मयूरपंक आदि।

डा० वर्मा प्रकृति से कवि है पर हिन्दी के इतिहास में नाटककार के रूप में आप का नाम अमर हो चुका है। आप अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रहे। आप की अध्यापकीय कुशलता के कारण रूप तथा लेका की सरकारों ने आपकी सेवाओं का उपमोग अपने-अपने देशों में हिन्दी अध्यापन के क्षेत्र में भी किया।

डा० वर्मा के नाटक रंगमंच पर खेले जाने योग्य होते हैं अतः आपके नाटकों का जनसाधारण में बहुत प्रचार हुआ है।

लगभग अद्दशताब्दी तक हिन्दी की सेवा में रत डा० रामकुमार वर्मा की लेखनी आज यकी नहीं बल्कि पहले से अधिक गतिमयता से सृजन में लगी है। ●

## रामकुमार वर्मा




जन्म : सन १९०५









हिन्दी साहित्य में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के रिक्त स्थान की किसी हद तक पूर्ति करने में सकल आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी की गणना शेष्ठम आलोचकों में की जाती है।

आपका जन्म सन १६०६ में ग्राम सगरल, जिला उज्ज्वाल (उ० प्र०) में एक सम्मानित कुल में हुआ। आपकी उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में हुई।

मन १६३२ में आप से प्रयाग से प्रकाशित दैनिक 'भारत' का मस्पादन प्रारंभ किया। दो वर्ष बाद आप ने काशी नागरी प्रचारिणी मध्य में 'धूर सागर' और गीता प्रेस, गोरखपुर में 'रामचरितमाला' का सम्पादन किया। सन १६४१ में आप काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। किर सन १६४७ में सागर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग अध्यक्ष हुए। बाद में आप विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के उपकुलपति हुए।

छायावाद के गम्भीर व्याख्याता, प्रह्लाद आलोचक और निर्दंषकार आचार्य वाजपेयी जी के प्रमुख ग्रंथों के नाम है—हिन्दी माहित्य-बीसवी शताव्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन्द्र, आधुनिक माहित्य, कवि तिराला आदि हैं।

साहित्य सुजन के साथ जीवन के अनेक घर्षं वाजपेयी जी ने अध्यापन-कार्य में लगाया। यदि वाजपेयी जी के बल साहित्य-सेत्र तक अपने को सीमित रखते तो प्राज हिन्दी में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने वह पड़ित और अलोचक तथा आचार्य का हम दर्शन पाते। किन भी वाजपेयी जी हिन्दी को जितना दे गए हैं वही हिन्दी के लिए महान निधि है और उनसे प्रभाव ने कर हिन्दी के अनेकों के माहित्य-आलोचक और विद्वान आपकी माहित्य-धारा को अनेक घटनाएं व्यस्त हैं।


सन १६६७ में आप के देहान्त में हिन्दी माहित्य ने एक आचार्य ही नहीं, हिन्दी के एक ऐसे विद्वान को जो दिया जिसकी कभी मभवनः कभी पूरी न हो सके। \*

## नन्ददुलारे वाजपेयी




जन्म : सन १६०६  
निधन : सन १६६७









हिन्दी साहित्य में श्रीमती महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रेरणास्पद, प्रतिभाशाली और आकर्षक तथा गरिमामय है। गद्य और पद के लेखन में समान रूप से शीर्षस्थ स्थान पाने वाले रचनाकारों में महादेवी का नाम एकमात्र उदाहरण है।

महादेवी का गद्यकार महान है या उनका काव्यकार का रूप, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका किसी के पास समुचित उत्तर नहीं। महादेवी जो हिन्दी की गरिमा है, महान कवयित्री, महान गद्यकार।

आपका सन १९०७ में फर्खावाद (उत्तर प्रदेश) में जन्म हुआ तथा वही प्रारंभिक शिक्षा भी। बाद में इंदौर, भागलपुर और डलाहावाद में। प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा संस्कृत में एम० ए० करने के बाद महात्मागांधी की प्रेरणा से आप स्त्री-शिक्षा के काम में लग गई और तभी से प्रसिद्ध नारी शिक्षा संस्थाप्रयाग महिला विद्यापीठ का सफलता पूर्वक सचालन कर रही है।

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर सारा जीवन आप ने समाज, देश व सहित्य की श्री वृद्धि में ही अर्पित कर दिया।

आप श्रेष्ठ चित्रकार भी हैं।

आज महादेवी जी का स्थान छायावाद की प्रमुखतम कवयित्री के रूप में अमर हो चुका है। नीहार, रथिम, नीरजा, सांघर्षीत, दीपशिखा, संकलिपता, कणदा, स्मृति की रेखाएँ और अतीत के चलचित्र तथा पथ के साथी आदि आप के प्रमुख प्रथ हैं। 'महादेवी' साहित्य नाम से आप की समस्त रचनाओं का संग्रह भी कई भागों में प्रकाशित हुआ है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा 'मंगला प्रसाद परितोषिक', नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 'विद्यावाचस्पति', उज्जैन विश्वविद्यालय द्वारा 'डाकट्रॉट तथा भारत सरकार द्वारा 'पद्मभूषण' की उपाधि द्वारा आप को सम्मानित किया गया है।

महादेवी जी हिन्दी की एक ऐसी ज्योति और अनंतोत्त प्रतिभा है जिनकी तुलना में विश्व की किसी भी नारी का नाम नहीं लिया जा सकता। ●

## महादेवी वर्मा




जन्म : सन १९०७









आचार्य हिन्दी प्रसाद द्विवेदी की गणता हिन्दी के शीर्षस्थानीय विद्वानों में होती है। आप का सदा प्रसन्न और उत्साही व्यक्तित्व आधुनिक युग के लेखकों के लिए प्रेरणा-स्रोत बिंदु हुआ है। आप उदार आलोचक मानवतावादी निवन्धकार तथा दर्शन, धर्म और मंसूत के महान विद्वान हैं।

आप का जन्म सन १९०७ में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुवेका द्वपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल में हुआ था। आप को ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान विरासत में मिला। आप ने सन १९३० में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य और इन्टर की परीक्षा पास की। उमी वर्ष हिन्दी प्राध्यापक के हृष में आप शांति-निकेतन चले गए। वहाँ १९४० से १९५० तक हिन्दी भवन के आचार्य पद पर रहे। वहीं आप रवीन्द्र नाथ ठाकुर के निकट सम्पर्क में आए। शांति निकेतन के उच्च सांस्कृतिक बातावरण में ही वास्तव में आप के साहित्य-जीवन का निर्माण हुआ। शांति निकेतन के बाद सन १९५० के पश्चात आप काशी विश्वविद्यालय, तथा पजाय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे।

आप ने ललित नियंत्र, उपन्यास और समालोचनाएँ लिखी हैं। आप के प्रमुख ग्रंथ हैं—हिन्दी साहित्य की भूमिका, कवीर, हिन्दी साहित्य की आदि काल, वाजभृत की आत्मकथा, चाहवड़ लेन, अणोक के फूल, फुटज, नार, सम्प्रदाय और कल्पलता आदि।

हिन्दी, संस्कृत के अलावा आप दंगला साहित्य के भी मर्मजन विद्वान हैं। आप अनेक वर्षों तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सम्पादक रहे।

आप की साहित्य सेवाओं के लिए भारत सरकार ने सन १९५३ में आप को 'पद्म भूषण' की उपाधि से अलंकृत किया।

साहित्य के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और विशिष्ट कर्तृत्व के कारण विशेष यश के आप भागी हैं। आप की भाषण-कला भी अद्वितीय है।


आप का रममय व्यक्तित्व हिन्दी की निधि है। •

## हिन्दीप्रसाद द्विवेदी




जन्म : सन १९०७









'दिनकर' नाम हिन्दी में श्रोज, तेजस्विता, राष्ट्रीयता और प्रगति का प्रतीक बन गया है। खूब आकर्षक ओजस्वी व्यक्तित्व और ओजस्वी वापी के धनी रामधारी सिंह 'दिनकर' राष्ट्रीय युग-धर्म के चारण हैं।

आप का सन १६०८ में सिमरिया, जिला मुंगेर (विहार) में जन्म हुआ। आप ने पठना विश्वविद्यालय से बी० ए० पास किया। कुछ बर्षों सरकारी नोकरी और अध्यापकी के बाद राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और बाद में भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार के पद पर रहे। आप को साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 'पद्म भूषण', की उपाधि मिल चुकी है।

आप मुख्यरूप से महाकवि हैं परं गद्य भी आप ने काफी लिखा। आप की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम हैं—रेणुका, हुकार, रसवन्ती, कुरुक्षेत्र, उवंशी, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा, अद्वनारीश्वर, संस्कृति के चार आध्याय, लोकदंव नेहरू आदि।

दिनकर जी ने अनेक बार विदेशों का भ्रमण किया और विदेशों में हिन्दी का सम्मान बढ़ाया।

आप का व्यक्तित्व बहुत विशाल, आकर्षक और प्रेरणास्पद है।

दिनकर जी आधुनिक युग के भारतीय संस्कृति के सशक्त आड्डाता और युग प्रवर्तक कवि हैं।

दिनकर जी की कृतियों से हिन्दी का श्रोजपूरण निखार संभव हुआ है। ◎

रामधारीसिंह  
'दिनकर'




जन्म : सन् १६०८









श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क' आधुनिक युग के अत्यधिक चर्चित लेखक हैं। आपका व्यक्तित्व जितना अनोखा और रंगीन है, आपकी लेखनी भी उतनी ही अनोखी और रंगीन है।

उपन्यासकार, नाटककार, कवि, आलोचक और कहानीकार अश्क जी बहुमुर्मी प्रतिभा के तथा प्रब्रह्म व पैनी लेखनी के मालिक हैं।

आप का जन्म सन १९१० में जालंधर (पंजाब) में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आप की वही हुई और बाकालत आपने लाहौर में पास की। लेकिन साहित्यमुरागी होने के कारण बाकालत को कमी पेशा न बनाकर पत्रकारिता और साहित्य सेवा के माध्यम से ही जीवन आपन करते रहे।

पत्रकारिता, सिने-अभिनय, आद्यापन, प्रकाशन आदि विभिन्न क्षेत्रों में जीवन के अनेकानेक वर्ष विना कर अब आप स्थायी रूप से प्रयाग में जम कर साहित्य-सृजन में व्यस्त रहते हैं।

अश्क जी जितने बड़े कथाकार हैं, उतने ही बड़े नाटककार और उतने ही महान् उपन्यासकार भी।

प्रारंभ में अश्क जी ने उर्दू में लिखना शुरू किया और उर्दू माहित्य में येठे यशोपाज़ैन के बाद हिन्दी में लिखने लगे और देखते ही देखते आपका हिन्दी कथा-साहित्य में शीर्षस्थ स्थान बन गया।

अब तक आप की पचास के लगभग पुस्तके हिन्दी में प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें 'गिरती दीवारें' नामक आपका बहुत उपन्यास अपने युग के प्रतिनिधि-कृति का सम्मान पा चुका है।

अश्क जी के प्रमुख यथों के नाम हैं—'गिरती दीवारें', 'सितारों के खेल', 'गम्भीर', 'शहर में घूमता आड़ना', 'चरवाहे', 'छठा बेटा', 'जय पराजय' आदि।

अश्क जी का व्यक्तित्व हिन्दी के नवोदित सेक्षकों के लिए सदा प्रेरणा रहा है। •

## उपेन्द्रनाथ 'अश्क'




जन्म : सन १९१०









वहुमुखी और योजमय प्रतिभा सम्पद व्यक्तित्व के धनी अज्ञेय जी का पूरा नाम है—सचिवदानन्द हीरानन्द बाह्यायन। अज्ञेय उपनाम ही नहीं, आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही अज्ञेय है।

आप का जन्म सन १९११ में कसिया, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ। आपकी पारंपरिक विद्या घर पर ही हुई। किर मदास और लाहोर में विज्ञान की उच्च-शिक्षा प्राप्त की, परन्तु माहित्य-क्षेत्र में ही सदा रोम रहे।

अपनी तरफाई में कई वर्ष क्रान्तिकारी आनंदोलन में भी लगाए और कुछ वर्ष जेल में भी विताए। जेल-प्रवास-काल से ही माहित्य-मृजन प्रारंभ किया।

अज्ञेय जी वहुमुखी प्रतिभा के सशक्त कलाकार हैं। कहानी, उपन्यास, कविता और निवन्ध—सभी विद्याओं में नई दिशा का निर्माण किया। आपने यात्रा धूर्तांत भी बहुत रोचक लिखे हैं। सम्पादन-क्षेत्र में भी यथेष्ट यश कमया। सैनिक, विशाल भारत प्रतीक, दिनमान, जैसे पत्र-पत्रिकाओं के सफल सम्पादक रहे हैं।

अज्ञेय जी का प्रसिद्ध जीवन-चरित-मूलक उपन्यास—‘देवर एक जीवनी’ आधुनिक युग की सर्वथेठ औपन्यासिक हृति है।

आप के अन्य ग्रन्थों के नाम हैं—विपथगा, कोठरी की बात, नदी के द्वीप, जयदील, शरणार्थी और ऐ तेरे प्रतिरूप आदि।


साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, मूर्तिकला, पुरातत्व विज्ञान और अमरण में आपकी विदेष रुचि रही है। आपने योरप तथा अमेरिका वी कई बार यात्रा की है।

अंग्रेजी साहित्य के भी आप मर्मज विद्वान है और भारतीय साहित्य की कई कृतियाँ अंग्रेजी में अनूदित करके आपने विदेशों में भारतीय साहित्य का सम्मान बढ़ाया है। \*


## अज्ञेय











स्वभाव से मस्त-मौला, अति फटकड़ और लुभावने व्यक्तिव वाले अमृतलाल नागर की मही भाँकी उनकी रचनाओं में आसानी से खोजी जा सकती है।

लखनऊ की नजाकत और नफामत को साहित्य में ढानने में नागर जी ने अद्वितीय सफलता पायी है।

सन १६१६ में आपका जन्म आगरा में हुआ लेकिन लगभग समस्त जीवन आप लखनऊ निवासी होकर ही रहे। अल्पवय से ही साहित्यिक लेखन प्रारम्भ कर दिया, इसीलिए पदार्डि नियमित न चल सकी।

सन १६३५ में 'वाटिका' कथा-संग्रह लेकर आप साहित्य-क्षेत्र में आए। हास्य-व्यंग्य की चाशनी मिली आपकी शैली अद्वितीय और निरान्त निरानी है।

महावंगाली उपन्यासकार शरतचन्द चट्ठोपाध्याय के निकट सम्पर्क में रहे और उनसे काफी प्रभावित भी रहे।

सन १६३६ में 'चकललस' नामक हास्य-पत्रिका का प्रकाशन किया। बाद में बम्बई व सिनेमा-जगत में भी रहे और इस दीन, 'राजा', 'कुंवाराव्याप', 'बीरकुणाल', 'भीरा' और 'कल्पना' जैसी प्रमिद्द फिल्मों के संवाद लिखे और अभिनय भी किया।

आप ने कई उपन्यास और अनेकानेक कहानियाँ लिखा है। बूंद और समृद्ध, अमृत और विष, ये कोठेवालियाँ, एकदा नैगियारण्ये आप के बड़े उपन्यास हैं जिन्हें आशुनिक युग की महान कृतियाँ माना गया है। वंगाल के अकाल के समय उमी पृष्ठभूमि पर आपकी कथा-कृति 'महाकाल' एक युग-प्रवर्तन कृति मानी गई।

आपकी रचनाएं वंगाली, मराठी, गुजराती तथा झसी आदि विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हो चुकी हैं।

आप आज के युग के प्रतिनिधि लेखक हैं। ●


## अमृतलाल नागर











## रजनी पनिकर



आप की हिन्दी लेखिकाओं में धीमती रजनी पनिकर का निर्भय और ग्रोजपूर्ण लेखन के कारण विशिष्ट स्थान बन चुका है। वर्तमान युग की बदलती नारी का चित्रण तथा नारी-मनोविज्ञान का विश्लेषण करने में आप की रचनाएँ अद्वितीय हैं। समाज की सड़ी-गली झटियों को तोड़ कर उभरने वाली नई नारी का चित्र आप की कलम से सजीव हो उठा है।

लाहौर में सन १९२४ में जन्म लेकर वहीं में अंग्रेजी व हिन्दी में एम॰ ए० किया। अल्पायु से ही लिखने की शक्ति हो गई थी। अतः वहूत प्रारंभ से ही आप की रचनाएँ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थीं। यों सन १९५४ से नियमित रूप से लेखन कार्य चल रहा है और अनेक सशक्त कथा-कृतियों की रचना करके आपने हिन्दी का गौरव बढ़ाया है।

पञ्चाब सरकार द्वारा प्रकाशित 'प्रदीप' का सम्पादन काफी दिनों किया। फिर आकाशवाणी से सम्बद्ध लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर आदि केन्द्रों में रह कर हिन्दी साहित्य को अपनी अमूल्य कृतियों से सजाती जा रही है।

आप ने कहानियों काफी संख्या में लिखी है। कहानियों के अलावा लगभग एक दर्जन उपन्यासों की भी भी रचना आपने की है जो हिन्दी संसार में वहूत चर्चित और प्रसिद्ध हए हैं।

आप की प्रमुख कृतियों के नाम हैं—पानी की दीवार, मोम के भोती, प्यासे बादल, काली लड़की, जाड़ की धूप, महानगर की मीना, सोनाली दी और सिगरेट के टुकड़े आदि।


आपकी कई रचनाएँ उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत होने का सम्मान पा चुकी हैं। \*

जन्म : सन १९२४









हिन्दी साहित्यकारों की वर्तमान पीढ़ी में श्री ओंकार शरद का व्यक्तित्व ओण, विद्रोह और कर्मठता का प्रतीक बन गया है।

अवस्था में जवानी की उतार है किन्तु मुख पर सदा शैशव की मुस्कान खेलती रहती है। है तो साहित्यकार किन्तु कभी-कभी राजनीति के अलाड़े में भी रम जाते हैं। तबियत में रझौनी, कार्य-न्यापार में रझौनी, साहित्य सर्जन में रझौनी, लेकिन स्वभाव में अधिजात शील, व्यवहार में नश को विनष्ट्र बना देने वाली विनश्चता।

सन १९२६ में भिजारुर (उ० प्र०) में एक निर्धन वैश्य परिवार में जन्म। लेकिन सदा इलाहाबाद में रह कर साहित्य सेवा में व्यस्त रहे। सन १९४२ में सोलह वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय आनंदोलन से जुड़ गए और लम्ही अवधि तक कारबास में रहे। शिक्षा अधूरी रह गई। जेल-चास में ही लिखना प्रारम्भ किया। सन १९४४ में पहली रचना प्रकाश में आई।

लहर, नोक-भोक, संगम, कादम्बिनी आदि पत्रिकाओं के सम्पादकीय से भी आप सम्बद्ध रहे हैं।

अब तक आधे दर्जन उपन्यासों, लगभग एक सौ कहानियों, शब्दचिठ्ठों व रेखाचित्रों की रचना कर चुके हैं। आप की प्रसिद्ध कृतियों के नाम हैं—लंका महराजिन, दादा, र्ण साहब, नातारिशता, अतिम बेला आदि। आप की लिखी ढाँ राममनोहर लोहिया की जीवनी आप की अत्यन्त लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है जिसके हिन्दी में कई संस्करण हो चुके हैं और अंग्रेजी, वर्गला तथा उर्दू में अनूदित भी हो चुकी है।

साहित्य में निराला और राजनीति में लोहिया से अत्यधिक प्रभावित आप का व्यक्तित्व साहित्य और राजनीति का मिलन-विन्दु है। ●

( प्र० प्र० वि० )

ओंकार शरद



जन्म : सन १९२६







